



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 328 राँची, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

05 अप्रैल, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र०-11/2014 का० 2882-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक 645 01.04.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में लोकसभा निर्वाचन, 2019 में, अनुबद्ध अनुसूची के अनुरूप, सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले 138 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।